



22 अप्रैल 2024

कमोडिटी मार्केट रिपोर्ट



 **smc**
moneywise. be wise.



प्रमुख खबरें

- सिल्वर इंस्टीट्यूट इंडस्ट्री एसोसिएशन ने कहा कि मांग में 2% की वृद्धि, मजबूत औद्योगिक खपत और कुल आपूर्ति में 1% की गिरावट के कारण 2024 में वैश्विक स्तर पर चांदी की कमी 17% बढ़कर 215.3 मिलियन टॉय औंस होने की उम्मीद है।
- सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टर्स एसोसिएशन के आंकड़ों के अनुसार 2023-24 वित्तीय वर्ष में भारत का ऑयलमिल निर्यात बढ़कर 4,885,437 टन हो गया है, जिसका मूल्य 15,370 करोड़ रुपये है जो पिछले वर्ष की तुलना में मात्रा में 13% और मूल्य में 35% की वृद्धि है।
- 1 अक्टूबर, 2023 से सीजन शुरू होने के बाद से 15 अप्रैल तक भारत का चीनी उत्पादन 311 लाख टन के करीब पहुंच गया है, जबकि पेराई शुरू करने वाली कुल 532 मिलों में से उत्तर प्रदेश में 42 सहित केवल 84 मिलों ने अभी भी अपना परिचालन जारी रखा है। तमिलनाडु को छोड़कर पूरे देश में मिलों का पेराई कार्य जल्द ही बंद हो सकता है।
- सरकार द्वारा आपूर्ति बढ़ाने और मूल्य वृद्धि पर अंकुश लगाने के लिए प्रतिबंध हटाने के बाद

NCDEX में सबसे अधिक बढ़ने वाली कमोडिटी

कमोडिटी	12.04.24	18.04.24	बदलाव (%)
स्टील	40620.00	43930.00	8.15%
हल्दी	15646.00	16454.00	5.16%
बाजरा	2356.00	2381.00	1.06%
कच्चा सूरजमुखी तेल	868.80	877.70	1.02%
कॉटनऑयलसीड	2549.00	2573.00	0.94%

NCDEX में सबसे अधिक गिरने वाली कमोडिटी

कमोडिटी	12.04.24	18.04.24	बदलाव (%)
कैस्टरसीड	5962.00	5745.00	-3.64%
जीरा	23060.00	22420.00	-2.78%
मक्का	2166.00	2112.00	-2.49%
कपास	1503.50	1483.50	-1.33%
कैस्टर ऑयल	1182.00	1172.00	-0.85%

साप्ताहिक समीक्षा

पांच सप्ताह की मजबूत तेजी के बाद कमोडिटी बाजारों में थोड़ी गिरावट देखी गई, और सीआरबी इंडेक्स 340 के करीब बंद हुआ। डॉलर इंडेक्स 106 के आसपास रुक गया, जबकि सुरक्षित निवेश के कारण ट्रेजरी की यील्ड बढ़ गई। सोने में लगातार पांचवें सप्ताह खरीदारी का सिलसिला जारी रहा, और चांदी भी 29 डॉलर के आसपास बढ़त का रुख बनाए हुए है। सिल्वर इंस्टीट्यूट इंडस्ट्री एसोसिएशन ने कहा कि मांग में 2% की वृद्धि, मजबूत औद्योगिक खपत और कुल आपूर्ति में 1% की गिरावट के कारण 2024 में वैश्विक स्तर पर चांदी की कमी 17% बढ़कर 215.3 मिलियन टॉय औंस होने की उम्मीद है। ऊर्जा क्षेत्र में, नेचुरल गैस का कारोबार एक दायरे में रहा, जबकि भू-राजनीतिक तनाव के बावजूद कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट हुई। उच्च ब्याज दर नीति पर भय फैलने के कारण तेल की कीमतें अब अपने उच्चतम स्तर से लगभग 10% कम हो गई हैं। बाजार में अब 2024 में 2 से कम दरों में कटौती की संभावना है, जबकि मांग का आउटलुक मध्यम है। जेपी मॉर्गन के अनुमान के मुताबिक, अप्रैल में अब तक दुनिया भर में तेल की खपत औसतन 101 मिलियन बैरल/दिन या उसके अपने पूर्वानुमान से 200,000 बैरल/दिन कम है। औद्योगिक धातुओं के एक महत्वपूर्ण उपभोक्ता चीन के उम्मीद से बेहतर जीडीपी आंकड़ों के कारण बेस मेटल की कीमतों में तेजी आई। फेडरल रिजर्व सर्वेक्षण से पता चला है कि फरवरी के अंत से अप्रैल की शुरुआत तक अमेरिकी आर्थिक गतिविधियों में थोड़ा विस्तार हुआ और कंपनियों के बीच यह डर था कि मुद्रास्फूर्ति कम करने की दिशा में प्रगति रुक जाएगी। अमेरिका और चीन में बेहतर विकास संख्या के कारण औद्योगिक मांग में वृद्धि हुई। यूके और यूएस द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों के परिणामस्वरूप बाजार में कमी की उम्मीदों पर भी रुझान तेज था, जो वास्तव में दुनिया के दो सबसे बड़े एक्सचेंजों पर महत्वपूर्ण औद्योगिक धातुओं की नई रूसी आपूर्ति के व्यापार पर प्रतिबंध लगाता है। सिटीग्रुप के अनुसार, रूस तीनों धातुओं का एक प्रमुख उत्पादक है, जो दुनिया का 6 प्रतिशत एल्युमीनियम, 4 प्रतिशत तांबा और 11 प्रतिशत उच्च शुद्धता निकल धातु का उत्पादन करता है। सप्ताह के उत्तरार्ध में भू-राजनीतिक तनाव के कारण ऊर्जा और सर्राफा में फिर से उछाल देखा गया।

अरंडी केक के सुस्त निर्यात और कमजोर पेराई मांग के कारण अरंडी तेल में गिरावट जारी रही, जबकि सूरजमुखी तेल की कीमतों में वृद्धि हुई, जिसे समकक्ष तेल की बढ़ती कीमतों का समर्थन प्राप्त है। कॉटनऑयलसीडकेक वायदा स्थिर रहा, लेकिन कपास की कीमतों में बिकवाली का दबाव देखा गया। बाजार में घटती आपूर्ति के कारण ग्वार की कीमतों को बहुत जरूरी समर्थन मिला। मिलें बाजार में गुणवत्तापूर्ण उपज प्राप्त करने के लिए संघर्ष कर रही हैं क्योंकि किसान और मिल नई फसल जारी करने में रुचि नहीं रखते हैं। ग्वारगम की निर्यात मांग में सुधार हुआ है जिससे ग्वारसीड की कीमतों में भी वृद्धि होगी। मसाला बाजार में, जीरा की कीमतों में गिरावट आई, और हल्दी की कीमतों में पांच सप्ताह की गिरावट के बाद तेजी आई और धनिया वायदा में मामूली खरीदारी देखी गई। कई हफ्तों की गिरावट के बाद मेंथा ऑयल की कीमतों में गिरावट रुक गई।

वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान भारत का दाल आयात पिछले वर्ष की तुलना में लगभग दोगुना होकर 3.74 बिलियन डॉलर का हो गया।

- भारत मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार दक्षिण-पश्चिम मानसून, जो भारत की वार्षिक वर्षा का लगभग 70 प्रतिशत है, सामान्य से ऊपर रहेगा। अगर यह बात सही साबित हुई तो पिछले छह साल में यह चौथी बार होगा जब देश में सामान्य से ज्यादा बारिश होगी।
- 1 अप्रैल को केंद्र सरकार के भंडार में गेहूं का स्टॉक पिछले 16 वर्षों में सबसे कम हो गया। लेकिन यह अभी भी 74.6 लाख टन के बफर मानक से 42,000 टन अधिक है।
- यूएसडीए की रिपोर्ट है कि देश में 3% सोयाबीन फसल की बुआई हो चुकी है, जो पिछले साल के समान ही है, लेकिन औसत गति से दो अंक आगे है। यूएसडीए से पता चलता है कि अमेरिका के उन सभी 10 राज्यों में सोयाबीन की बुआई औसत से आगे है, जिन्होंने अब तक बुआई की सूचना दी है।

MCX में सबसे अधिक बढ़ने वाली कमोडिटी

कमोडिटी	12.04.24	18.04.24	बदलाव (%)
एल्युमीनियम	226.45	237.30	4.79%
तांबा	820.55	838.30	2.16%
सोना	71843.00	72683.00	1.17%
चांदी	82813.00	83273.00	0.56%
जिंक	246.20	247.55	0.55%

MCX में सबसे अधिक गिरने वाली कमोडिटी

कमोडिटी	12.04.24	18.04.24	बदलाव (%)
कॉटन	59860.00	57580.00	-3.81%
कच्चा तेल	7187.00	6933.00	-3.53%
निकल	1548.60	1526.30	-1.44%
नेचुरल गैस	148.50	146.90	-1.08%
मेंथा ऑयल	905.90	899.90	-0.66%



हाजिर कीमतें

कमोडिटी	स्थान	12.04.2024	18.04.2024	बदलाव(%)
जौ	जयपुर	1928.50	1963.50	1.81%
चना	दिल्ली	6224.65	6353.80	2.07%
धनिया	कोटा	7708.00	7670.65	-0.48%
क्रूड पॉम ऑयल	कांडला	940.40	916.10	-2.58%
गुड़	मुजफ्फरपुर	1438.75	1442.85	0.28%
ग्वारसीड	जोधपुर	5450.05	5577.80	2.34%
ग्वारगम	जोधपुर	10809.85	11062.40	2.34%
जीरा	ऊझा	23834.80	23159.60	-2.83%
सरसों	जयपुर	5399.85	5395.95	-0.07%
रिफाईंड सोया तेल	मुंबई	955.00	945.00	-1.05%
सोयाबीन	इंदौर	4944.30	4817.30	-2.57%
हल्दी	निजामाबाद	15932.95	16721.55	4.95%
गेहूं	दिल्ली	2460.00	2455.00	-0.20%
कॉटन	कड़ी	28683.90	28205.85	-1.67%
कॉटनऑयलसीडकेक	अकोला	2675.00	2689.35	0.54%

LME/ COMEX/ NYMEX में धातुओं की कीमत (डॉलर में)

कमोडिटी	एक्सचेंज	कॉन्ट्रैक्ट	12.04.2024	18.04.2024	बदलाव(%)
एल्युमीनियम	LME	नकद	2494.00	2614.50	4.83%
तांबा	LME	नकद	9457.50	9734.50	2.93%
लेड	LME	नकद	2176.50	2180.00	0.16%
निकल	LME	नकद	17797.00	18559.00	4.28%
जिंक	LME	नकद	2828.50	2812.50	-0.57%
सोना	COMEX	जून	2374.10	2398.00	1.01%
चांदी	COMEX	मई	28.33	28.38	0.18%
लाइट क्रूड	NYMEX	मई	85.66	82.73	-3.42%
नेचुरल गैस	NYMEX	मई	1.77	1.76	-0.73%

अंतरराष्ट्रीय बाजार में कमोडिटी की कीमतें

कमोडिटी	एक्सचेंज	कॉन्ट्रैक्ट	12.04.2024	18.04.2024	बदलाव(%)
सोयाबीन	CBOT	जुलाई	1,186.75	1,149.00	-3.18%
सोया तेल	CBOT	जुलाई	46.45	44.66	-3.85%
कॉटन	ICE	जुलाई	84.59	80.61	-4.71%
सीपीओ	BMD	जुलाई	4,282.00	3,984.00	-6.96%

गोदाम में सप्ताहिक स्टॉक स्थिति (NCDEX)

कमोडिटी	यूनिट	11.04.2024 क्वांटिटी	18.04.2024 क्वांटिटी	अंतर
कॉटन	मी.टन	0	0	0
बाजरा	मी.टन	30	30	0
जौ	मी.टन	160	381	221
कैस्टर सीड	मी.टन	4434	9771	5337
धनिया	मी.टन	3010	4355	1345
कॉटनऑयलसीडकेक	मी.टन	67551	66237	-1314
ग्वारगम	मी.टन	18328	17984	-344
ग्वारसीड	मी.टन	26943	24153	-2790
जीरा	मी.टन	0	141	141
स्टील	मी.टन	10	10	0

गोदाम में सप्ताहिक स्टॉक स्थिति (MCX)

कमोडिटी	यूनिट	12.04.2024 क्वांटिटी	18.04.2024 क्वांटिटी	अंतर
एल्युमीनियम	मी.टन	532	363	-170
तांबा	मी.टन	640260	630089	-10171
सोना	किग्रा	406	329	-77
सोना मिनी	किग्रा	1776	1776	0
सोना गिनी	किग्रा	32900	32900	0
लेड	किग्रा	0	0	0
चांदी (30 किग्रा बार)	किग्रा	314379	309248	-5131
चांदी एम	किग्रा	49553	49553	0
जिंक	मी.टन	0	0	0

LME में सप्ताहिक स्टॉक स्थिति(टन में)

कमोडिटी	स्टॉक की स्थिति 12.04.2024	स्टॉक की स्थिति 18.04.2024	अंतर
एल्युमीनियम	521600	509250	-12350.00
तांबा	123475	122925	-550.00
निकल	75534	73482	-2052.00
लेड	271525	272200	675.00
जिंक	258475	257050	-1425.00



ट्रेंड शीट

एक्सचेंज	कमोडिटी	काट्रेक्ट	बंद * भाव	ट्रेंड बदलाव की तिथि	ट्रेंड	भाव के ट्रेंड में बदलाव	सपोर्ट	रेजिस्टेंस	क्लोजिंग स्टॉप लास
NCDEX	जीरा	मई	22255.00	14.03.24	मंदी	25000.00	-	23990.00	24050.00
NCDEX	हल्दी	जून	18346.00	18.04.24	तेजी	18000.00	17650.00	-	17500.00
NCDEX	ग्वारसीड	मई	5562.00	14.02.24	तेजी	5300.00	5220.00	-	5200.00
NCDEX	ग्वारगम	मई	11055.00	28.03.24	तेजी	10000.00	10340.00	-	10250.00
NCDEX	कैस्टरसीड	मई	5806.00	18.01.24	तेजी	5650.00	5680.00	-	5650.00
NCDEX	सुरजमुखी तेल	मई	873.50	06.03.24	तेजी	845.00	830.00	-	825.00
NCDEX	कॉटनऑयलसीडकेक	मई	2560.00	26.03.24	मंदी	2600.00	-	2675.00	2700.00
MCX	मेंथा ऑयल	अप्रैल	899.90	27.09.23	मंदी	960.00	-	945.00	950.00
MCX	बुलडेक्स	मई	18478.00	04.03.24	तेजी	16600.00	18150.00	-	18100.00
MCX	चांदी	मई	83273.00	04.03.24	तेजी	72200.00	80300.00	-	80000.00
MCX	सोना	जून	72683.00	04.03.24	तेजी	64000.00	71600.00	-	71500.00
MCX	तांबा	अप्रैल	838.30	06.03.24	तेजी	730.00	803.00	-	800.00
MCX	लेड	अप्रैल	188.85	06.03.24	तेजी	179.00	181.00	-	180.00
MCX	जिंक	अप्रैल	247.55	06.03.24	तेजी	218.00	228.00	-	225.00
MCX	एल्युमिनियम	अप्रैल	237.30	04.03.24	तेजी	202.00	229.00	-	228.00
MCX	कच्चा तेल	मई	6896.00	13.03.24	तेजी	6500.00	6530.00	-	6500.00
MCX	नेचुरल गैस	मई	166.50	18.01.24	मंदी	235.00	-	188.00	190.00

*18/04/2024 का बंद भाव

नोट: 1. कभी-कभी आप पाओगे कि स्टॉप लास बहुत अधिक है लेकिन यदि हम स्टॉप लास को एक बार बदल दें तो हमें कमोडिटी में मजबूती आती दिखेगी। इस स्थिति में स्टॉप लास अधिक होगा क्योंकि हम सप्ताहिक आधार पर ग्राफ को देखते हैं और लम्बे समय तक के रुझानों को लेते हैं।
2. इस सप्ताहिक ट्रेंड का मिलान योजना के ट्रेंड से नहीं किया जाना चाहिए, जिसे प्रतिदिन सुबह को मार्निंग रिपोर्ट के नाम से ई-मेल किया जाता है।

टेक्निकल सुझाव

तांबा (मई) एमसीएक्स



तांबा (मई) एमसीएक्स

उच्चस्तर: 850.90

निचला स्तर: 709.35

एमसीएक्स में तांबा (मई) कॉन्ट्रैक्ट 18 अप्रैल 2024 को 845.15 रू पर बंद हुआ। वर्तमान समय में 18 दिनों को एक्सपोनेंसियल मूविंग औसत 814.31 है। दैनिक चार्ट में कमोडिटी की रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स की वैल्यू 81.60 है। दोनों ही इंडिकेटर खरीददारी का संकेत दे रहे हैं।

825.00 रू के स्टॉपलॉस के साथ 890.00 रू के टारगेट के लिए 845.00 रू के नजदीक खरीददारी की जा सकती है।

कच्चा तेल (मई) एमसीएक्स



कच्चा तेल (मई) एमसीएक्स

उच्च स्तर: 7280.00

निचला स्तर: 6367.00

एमसीएक्स में कच्चा तेल (मई) कॉन्ट्रैक्ट 18 अप्रैल 2024 को 6896.00 रू पर बंद हुआ। वर्तमान समय में 18 दिनों को एक्सपोनेंसियल मूविंग औसत 6963.245 है। दैनिक चार्ट में कमोडिटी की रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स की वैल्यू 68.358 है। दोनों ही इंडिकेटर खरीददारी का संकेत दे रहे हैं।

6800.00 रू के स्टॉपलॉस के साथ 7250.00 रू के टारगेट के लिए 6950.00 रू के नजदीक खरीददारी की जा सकती है।

ग्वारगम (मई) एनसीडीईएक्स



ग्वारगम (मई) एनसीडीईएक्स

उच्चस्तर: 11180.00

निचला स्तर: 9866.00

एमसीएक्स में ग्वारगम (मई) कॉन्ट्रैक्ट 18 अप्रैल 2024 को 11055.00 रू पर बंद हुआ। वर्तमान समय में 18 दिनों को एक्सपोनेंसियल मूविंग औसत 10688.70 है। दैनिक चार्ट में कमोडिटी की रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स की वैल्यू 61.228 है। दोनों ही इंडिकेटर खरीददारी का संकेत दे रहे हैं।

11000.00 रू के स्टॉपलॉस के साथ 11600.00 रू के टारगेट के लिए 11200.00 रू के ऊपर खरीददारी की जा सकती है।



अगले सप्ताह में बाजार का रुख

मसाले

स्टॉकिस्टों की ओर से बढ़ती खरीदारी के कारण सप्ताह के दौरान हल्दी की कीमतों में तेज रिकवरी हुई। वर्ष 2024 में कम उत्पादन के कारण पिछले वर्ष की तुलना में आवक की गति धीमी रही है। वर्ष 2024 में पैदावार में गिरावट के बीच हल्दी के तहत कम रकबे के कारण उत्पादन में साल-दर-साल लगभग 14% गिरावट होने की संभावना है और यह 9.2-9.5 लाख टन के बीच रह सकता है। मध्य और दक्षिणी क्षेत्र में हल्की से मध्यम बारिश के पूर्वानुमान ने भी बाजार के सेंटीमेंट को समर्थन दिया क्योंकि समय पर कोई भी बारिश फसल और कटाई के बाद की गतिविधियों और उपज को प्रभावित करेगी। हाल के सप्ताह में आपूर्ति सामान्य से कम रही है जिससे बाजार के सेंटीमेंट को बढ़ावा मिला और खरीदार सक्रिय खरीदारी में व्यस्त रहे। इसके अलावा निर्यात पूछताछ में सुधार से कीमतों में हर गिरावट पर स्टॉकिस्टों को हल्दी खरीदने के लिए आकर्षित करने की संभावना है। जनवरी-24 में भारत से हल्दी निर्यात 15% कम होकर 10.49 हजार टन हो गया, जबकि अप्रैल-23-जनवरी-24 के दौरान कुल निर्यात पिछले वर्ष से 3.5% कम होकर 131.6 हजार टन दर्ज किया गया। हल्दी की कीमतें 17700-19900 के दायरे में कारोबार कर सकती हैं।

साप्ताहिक आधार पर जीरा वायदा में तेजी का कारोबार हुआ, जहां निर्यात मांग में सुधार के कारण कीमतों में बढ़त दर्ज की गई। बढ़ती निर्यात मांग के कारण उझा बाजार में हाजिर कीमतों में तेजी देखी गई और इसका असर वायदा कीमतों पर भी देखा गया। लेकिन बढ़त सीमित होने की संभावना है क्योंकि बंपर उत्पादन की संभावनाएं और नई फसल की शुरुआत से कीमतों पर दबाव रह सकता है। गुजरात और राजस्थान में कटाई गतिविधियां अंतिम चरण में हैं जिससे आपूर्ति में वृद्धि होगी। सीरिया और तुर्की में कम उत्पादन के कारण वैश्विक आपूर्ति कम हो गई है, जिससे हाल के महीनों में भारतीय जीरा निर्यात को बढ़ावा मिला है। भारत ने जनवरी-24 में 12.4 हजार टन जीरा निर्यात किया, जबकि पिछले साल यह 8.04 हजार टन था, जो साल-दर-साल 54% अधिक है। वर्ष 2024 में भारत में जीरा का उत्पादन साल-दर-साल 30% बढ़ने की उम्मीद है। जीरा की कीमतों के 21500-30000 के बीच कारोबार करने की संभावना है।

घरेलू खरीदारी बढ़ने से धनिया की कीमतों में बढ़ोतरी हुई। कमजोर उत्पादन अनुमान के मद्देनजर भौतिक मांग में सुधार हुआ। मजबूत निर्यात मांग ने भी कीमतों को तेजी के रूझान के साथ कारोबार करने में मदद की। भारत ने अप्रैल-23-जनवरी-24 के दौरान लगभग 83.6 हजार टन धनिया का निर्यात किया, जो पिछले वर्ष के 24.8 टन की तुलना में साल-दर-साल 215% अधिक है। कमजोर आपूर्ति की आशंका के कारण धनिया में मजबूती बरकरार रहने की संभावना है क्योंकि रकबा और उपज में गिरावट के कारण उत्पादन में साल-दर-साल लगभग 10-15% की कमी होने की संभावना है। भारत के उत्तरी भाग में हाल की वर्षा की रिपोर्ट से उपज पर असर पड़ने की संभावना है। कटाई गतिविधियों के आगे बढ़ने के साथ आवक बढ़ने की उम्मीद है जो अंतिम चरण में है। धनिया की कीमतों के 7200-8400 के दायरे में रहने की संभावना है।

अन्य कमोडिटीज

वैश्विक बाजार में कीमतों में कमजोरी को देखते हुए कपास की कीमतों में गिरावट हुई। अमेरिकी डॉलर इंडेक्स में मजबूती के कारण आईसीडी में कॉटन की कीमतों में गिरावट हुई। कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट के साथ पॉलिएस्टर धागे की बेहतर मांग की संभावनाओं ने भी कपास की कीमतों पर दबाव डाला। स्पिनिंग मार्जिन और निर्यात में गिरावट के कारण मांग कम रही, जिससे जिनर्स और स्पिनर्स थोक खरीदारी से दूर रहे। मुख्य फोकस अमेरिका में आगामी फसल और रोपण की स्थिति पर होगा। अमेरिका में कपास की बुआई सुचारू रूप से चल रही है और 15 अप्रैल तक 8% बुआई पूरी हो चुकी है, जो लगभग पिछले पांच साल के औसत के समान है। घरेलू मोर्चे पर, घरेलू बाजार में उत्पादन कम होने के कारण आवक की गति कम हो गई है। आपूर्ति संबंधी चिंताओं के कारण कपास की कीमतें अधिक रहने की संभावना है क्योंकि आने वाले हफ्तों में आवक कम रहने की संभावना है क्योंकि वर्ष 2023-24 में अब तक लगभग 80%-83% आवक बाजार में पहुंच चुकी है। एमसीएक्स पर कॉटन की कीमतों के 55500-61500 के बीच कारोबार करने की संभावना है।

आपूर्ति की कमी के बीच बेहतर मांग की संभावना के कारण कॉटनऑयलसीडकेक की कीमतें बढ़त के साथ कारोबार कर सकती हैं। कॉटनऑयलसीडकेक की कीमतों के 2470-2680 के दायरे में कारोबार करने की संभावना है।

बाजार में आपूर्ति संबंधी चिंताओं के कारण ग्वारसीड वायदा में तेजी की संभावना है। कम उत्पादन के कारण हाल के सप्ताहों में आवक की गति धीमी रही है। मध्य पूर्व में बढ़ते भू-राजनीतिक तनाव के कारण कच्चे तेल की कीमतों में मजबूती से भी ग्वार गम के लिए बाजार के सेंटीमेंट को समर्थन मिलेगा। वर्ष 2023-24 में ग्वारसीड का कुल उत्पादन साल-दर-साल 11% -13% घटकर 10.7 लाख टन रह गया है। मौजूदा दर पर ग्वारगम की मांग बढ़ी है जिससे निर्यात में बढ़ोतरी होगी। पेरार्ड मार्जिन में सुधार हुआ है जिससे ग्वारगम की पेरार्ड मांग में वृद्धि होगी। ग्वारगम के बढ़ते निर्यात की रिपोर्ट से कीमतों को समर्थन मिलने की संभावना है। जनवरी-24 में ग्वारगम का निर्यात सालाना 30% बढ़कर 20.05 हजार टन हो गया। ग्वारसीड की कीमतों को 5200 के आसपास सपोर्ट मिलने की उम्मीद है, जबकि रेजिस्टेंस 6000 पर देखा जा सकता है। इसी तरह, ग्वारगम की कीमतों को 10300 के आसपास सपोर्ट मिलने की संभावना है, जबकि रेजिस्टेंस 11800 पर देखा जा सकता है।

वैश्विक बाजार में मेशॉल की सुस्त निर्यात पूछताछ के कारण मेंथा तेल की कीमतों में गिरावट की संभावना है। लेकिन, कम रकबे के कारण कमजोर उत्पादन अनुमान से बड़े नुकसान पर अंकुश लगने की संभावना है। मेंथा ऑयल की कीमतों को 870 के करीब सपोर्ट मिलने की संभावना है और 920 के स्तर पर रेजिस्टेंस देखा जा सकता है।

अरंडीमिल की कमजोर मांग के कारण अरंडी की कीमतों में गिरावट की संभावना है। अरंडी की पेरार्ड मांग कम होने से कीमतों पर दबाव पड़ने की संभावना है। अरंडी (कैस्टर सीड) की कीमतों के 5600-6100 के दायरे में रहने की संभावना है।

सर्प्रा

मध्य पूर्व में बढ़ते राजनीतिक तनाव के बीच निवेशकों द्वारा सुरक्षित संपत्तियों में निवेश करने की वजह से सोने की कीमतें लगातार पांचवीं साप्ताहिक बढ़त के साथ तेजी दर्ज कर रही हैं। यह उछाल निरंतर अधिक अमेरिकी ब्याज दरों के संभावित प्रभाव पर बढ़ती चिंताओं के बावजूद आया है। हाल ही में ईरान पर अमेरिका द्वारा नए प्रतिबंधों की घोषणा, विशेष रूप से इजराइल पर हमले के बाद उसके मानव रहित हवाई वाहन उत्पादन को लक्षित करने से, भू-राजनीतिक अनिश्चितताओं को अधिक बढ़ावा मिला है, जिससे निवेशक सोने जैसी संपत्ति की ओर आकर्षित हो रहे हैं। ब्याज दरों पर फेडरल रिजर्व का रुख बाजार पर्यवेक्षकों के लिए केंद्र बिंदु रहा है। नीति निर्माताओं ने मुद्रास्फीति पर सुस्त प्रगति और लचीली अमेरिकी अर्थव्यवस्था की पुष्टभूमि के बीच उधार लेने की लागत को मौजूदा स्तर पर बनाए रखने की आवश्यकता पर जोर देते हुए सतर्क दृष्टिकोण का संकेत दिया है। लेकिन, अटलांटा फेडरल रिजर्व बैंक के अध्यक्ष राफेल बॉस्चिक ने संकेत दिया है कि यदि मुद्रास्फीति का दबाव बना रहता है, तो केंद्रीय बैंकों को अपने रुख का पुनर्मूल्यांकन करने और ब्याज दरें बढ़ाने पर विचार करने की आवश्यकता हो सकती है। मार्च-अप्रैल में चांदी की कीमतों में 26% की उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, जो सोने में तेजी और तांबे की मजबूती के कारण बढ़ी। तकनीकी सुधार की उम्मीदों के बावजूद, सहायक कारकों के कारण चांदी में तेजी का रूझान बरकरार है। कॉमेक्स पर सोने को 2430 डॉलर के आसपास रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ रहा है, और सपोर्ट स्तर 2380 और 2340 डॉलर के आसपास देखा जा रहा है। दूसरी ओर, चांदी में निचले स्तरों से खरीदारी में दिलचस्पी रहने की उम्मीद है, और कीमतें के 26.50 से 30.00 डॉलर प्रति औंस होने का अनुमान है। वाले सप्ताह में सोना और चांदी दोनों में तेजी की गति जारी रहने की संभावना है। सोने की कीमतों के 71000 से 73500 के दायरे में कारोबार करने की संभावना है, जबकि चांदी की कीमतें 81500 से 84500 के दायरे में कारोबार कर सकती हैं।

एनर्जी कॉम्प्लेक्स

भू-राजनीतिक जोमिख प्रीमियम में धीरे-धीरे कमी और कमजोर मांग का संकेत देने वाले बढ़ते अमेरिकी भंडार के कारण कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट का सामना करना पड़ा। बाजार ने अप्रैल की शुरुआत से अर्जित जोखिम प्रीमियम को कम करना जारी रखा है, जब सीरिया में ईरान के दूतावास पर इजरायल के हमले के कारण मध्य पूर्व में संघर्ष बढ़ने की आशंका पैदा हो गई थी। सप्ताहांत में ईरान की जवाबी कार्रवाई, जिसमें इजराइल को निशाना बनाने वाले सैकड़ों ड्रोन और मिसाइलें शामिल थीं, को बड़े पैमाने पर रोक दिया गया, जिसके परिणामस्वरूप न्यूनतम क्षति हुई और इजराइल ने तत्काल कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। इस घटनाक्रम ने व्यापक क्षेत्रीय संघर्ष के बारे में चिंताओं को कम कर दिया। अमेरिकी तेल भंडार में उम्मीद से अधिक 2.7 मिलियन बैरल की वृद्धि की ईआईए रिपोर्ट ने बाजार के सेंटीमेंट को अधिक कमजोर कर दिया, जिससे कम मांग के बारे में चिंताएं कम हो गईं। लेकिन, बाइडेन प्रशासन द्वारा वेनेजुएला के तेल निर्यात पर प्रतिबंधों के नवीनीकरण से कीमतों को कुछ समर्थन मिला। डब्ल्यूटीआई कच्चा तेल वायदा 2% से अधिक बढ़कर 85 डॉलर प्रति बैरल के करीब पहुंच गया, जिससे ईरान, इराक और सीरिया में महत्वपूर्ण विस्फोटों की रिपोर्ट के बाद सप्ताह के शुरू में हुए अधिकांश नुकसान की भरपाई हो गई, जिसके इजरायली हमले होने का संदेह था। आगामी दिनों में तेल की कीमतों में उतार-चढ़ाव होने की उम्मीद है, जो घटनाक्रमों से काफी प्रभावित है। कच्चे तेल की कीमतों के 6800 और 7200 के बीच रहने का अनुमान है। इस बीच, नेचुरल गैस की कीमतों में मध्यम वृद्धि हुई है क्योंकि भूमिगत भंडारण स्तर 50 बिलियन क्यूबिक फीट से बढ़कर 2,333 बिलियन क्यूबिक फीट हो गया, जो पांच साल के औसत से 36% अधिक है। इस साल अमेरिकी गैस उत्पादन में लगभग 10% की गिरावट के बावजूद, कुएं के पूरा होने में देरी और ईक्यूटी और चेसापीक एनर्जी जैसी कंपनियों द्वारा ड्रिलिंग गतिविधियों में कमी के कारण, लगभग सामान्य मौसम पूर्वानुमान के बीच कीमतों को 139 से 155 के बीच कारोबार करने की उम्मीद है। 26 अप्रैल से 3 मई तक तापमान औसत से अधिक रहेगा।



बेस मेटल

बेस मेटल की कीमतों में तेजी का रुझान जारी रह सकता है, जबकि मजबूत औद्योगिक गतिविधि, रूसी धातुओं पर प्रतिबंधों के बीच आपूर्ति में व्यवधान और धातु के दुनिया के सबसे बड़े उपभोक्ता में बेहतर मांग के कारण कीमतें कई महीने के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई हैं। यूरोप और अमेरिका से भी मांग नाटकीय रूप से बढ़ने की उम्मीद है, क्योंकि इन देशों में संचालित रूप से आर्थिक और औद्योगिक सुधार में तेजी देखी जा रही है। एलएमई ने यूक्रेन पर रूस के आक्रमण के लिए लगाए गए नए अमेरिकी और यूके प्रतिबंधों का अनुपालन करने के लिए 13 अप्रैल को या उसके बाद उत्पादित रूसी धातु पर प्रतिबंध लगा दिया। एलएमई के नवीनतम आंकड़ों से पता चलता है कि तांबा, एल्युमीनियम और लेड के रद्द वारंट-एक्सचेंज के गोदामों से वितरित होने के लिए निर्धारित भंडार में उछाल दर्ज की गई है। तांबे की कीमतें 825-855 के दायरे में कारोबार कर सकती है। मांग में वृद्धि को चिली की सरकारी तांबा खनन कंपनी कोडेलको के उत्पादन बढ़ाने के प्रयासों से भी समर्थन मिला है, जिसके पिछली तिमाही में चुनौतियों का सामना करने के बावजूद 2023 के उत्पादन को पार करने की उम्मीद है। 2024 में एंटोफगास्टा की पहली तिमाही के तांबे के उत्पादन में साल-दर-साल 11% की गिरावट दर्ज की गई है। उत्पादन में गिरावट के बावजूद, एंटोफगास्टा ने अपने पूरे साल के उत्पादन मार्गदर्शन को बनाए रखा है, जिसमें साल-दर-साल 1% से 7% की वृद्धि की उम्मीद है, जिसका लक्ष्य 670-710 किलोटन है। जिंक की कीमतें 235-260 रू के दायरे में कारोबार कर सकती हैं। जिंक की खपत वैश्विक औद्योगिक उत्पादन चक्र से काफी प्रभावित होती है, जो गैल्वनाइजिंग स्टील में इसकी प्राथमिक भूमिका और मैनुफैक्चरिंग, निर्माण और ऑटोमोटिव क्षेत्रों में इसके भारी उपयोग को दर्शाती है। लेड की कीमतें 184-194 के दायरे में कारोबार कर सकती हैं। एल्युमीनियम की कीमतें 230-250 के दायरे में कारोबार कर सकती हैं। स्टील लॉन्ग (मई) की कीमतों के तेजी के रुझान के साथ 47000-48500 के स्तर के बीच कारोबार करने की संभावना है। एशिया में स्टेनलेस स्टील की कीमतें मजबूत हैं और बाजार में उल्लेखनीय सुधार के कारण बढ़ रही हैं।

वैश्विक स्तर पर चांदी की मांग और आपूर्ति

चांदी को कीमती धातुओं के साथ-साथ एक औद्योगिक वस्तु के रूप में भी जाना जाता है। औद्योगिक उपयोग से लेकर सजावट, प्रौद्योगिकी, फोटोग्राफी और चिकित्सा तक में औद्योगिक उपयोग के कारण यह सबसे बहुमुखी धातु है। चांदी के उपयोग में वृद्धि कोविड-19 महामारी की शुरुआती अवधि के दौरान भारी गिरावट के बाद से रिकवरी के कारण भी हुई है। घरेलू कामकाजी अर्थव्यवस्था की मांग, उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स में तेजी, 5जी बुनियादी ढांचे में निवेश, आपूर्ति पाइपलाइन के साथ भंडार जमा करने और हरित अर्थव्यवस्था में बढ़ते अंतिम उपयोग के कारण कुल मिलाकर मांग में बढ़ोतरी को मदद मिली है। चांदी की वैश्विक खपत का लगभग 60 प्रतिशत औद्योगिक उपयोग के लिए होता है और शेष निवेश उद्देश्यों के लिए होता है।

वैश्विक स्तर पर चांदी की आपूर्ति

- सिल्वर इंस्टीट्यूट इंडस्ट्री एसोसिएशन के अनुसार मांग में 2% की वृद्धि, मजबूत औद्योगिक खपत और कुल आपूर्ति में 1% की गिरावट के कारण 2024 में वैश्विक स्तर पर चांदी की कमी 17% बढ़कर 215.3 मिलियन ट्रॉय औंस होने की उम्मीद है।
- मौजूदा कमी की स्थिति कम आपूर्ति और मजबूत औद्योगिक उठाव का परिणाम है जिसने अन्य क्षेत्रों में मांग में कमी की भरपाई करने में मदद की।
- वैश्विक स्तर पर चांदी खदानों से उत्पादन 2024 में 0.8% की मामूली गिरावट के साथ 823.5 मिलियन ट्रॉय औंस (25,613 टन) होने का अनुमान है। पूर्वानुमान है कि मेक्सिको में भी उत्पादन बढ़ जाएगा (5.6 मिलियन ट्रॉय औंस, 173 टन)
- अमेरिका से भी आपूर्ति बढ़ेगी (+3.5 मिलियन ट्रॉय औंस, 110 टन)। अन्यत्र, मोरक्को में, अया गोल्ड और सिल्वर की जगाउंडर खदान में विस्तार 5.5 मिलियन ट्रॉय औंस (171 टन) की वृद्धि के साथ चालू होने का अनुमान है।

वैश्विक स्तर पर चांदी की मांग

- इस वर्ष औद्योगिक मांग 9% बढ़कर एक नई रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंचने का अनुमान है।
- वैश्विक अर्थव्यवस्था में मामूली वृद्धि से मांग के सभी क्षेत्रों में लाभ को बढ़ावा मिलेगा। पिछले दो वर्षों की तरह, उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स में पुनरुत्थान के साथ-साथ हरित अर्थव्यवस्था में अंतिम उपयोग मांग का मुख्य चालक बना रहेगा।
- आभूषण निर्माण में 2024 में 4% की वृद्धि होने की उम्मीद है। खुदरा विक्रेताओं के द्वारा फिर से स्टॉक जमा करने के मामले में भारत के सबसे बड़े योगदानकर्ता होने की उम्मीद है।
- 2022 में अब तक के उच्च स्तर पर पहुंचने के बाद, सिक्कों और बार के माध्यम से भौतिक निवेश 2023 में साल-दर-साल 28% कम होकर तीन साल के निचले स्तर पर आ गया। 2023 के 243 मिलियन ट्रॉय औंस से 2024 में यह 13% कम होकर 212 मिलियन ट्रॉय औंस रहने की उम्मीद है।
- सरकार और उद्योग के अधिकारियों ने रॉयटर्स को बताया कि फरवरी में भारत का चांदी आयात 260% बढ़कर रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गया, क्योंकि कम शुल्क ने संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) से बड़ी खरीद को प्रोत्साहित किया।
- दुनिया के सबसे बड़े चांदी उपभोक्ता भारत में अधिक मांग, वैश्विक कीमतों को तीन साल में अपने उच्चतम स्तर के करीब कारोबार करने में मदद कर सकती है।
- सौर पैनल उत्पादन में चांदी की अधिक मांग भारत में चांदी की कुल मांग को बढ़ाने वाले कारकों में से एक है।
- भारत ने फरवरी में रिकॉर्ड 2,295 मीट्रिक टन चांदी का आयात किया, जबकि जनवरी में 637 टन किया था।
- फरवरी में, भारत ने संयुक्त अरब अमीरात से 939 टन आयात किया, जो कुल मासिक आयात का 41% है, क्योंकि व्यापारियों ने कम शुल्क से लाभ उठाने के लिए बड़ी मात्रा में खरीदारी की।
- वैश्विक स्तर पर चांदी के बर्तनों का निर्माण 2023 में 25% की उल्लेखनीय गिरावट के साथ 55.2 मिलियन ट्रॉय औंस (1,717 टन) पर आ गया। 2024 के संबंध में, हमने वैश्विक स्तर पर चांदी के बर्तनों की मांग में 7% की वृद्धि का अनुमान लगाया है।

Identifiable Silver Bullion Inventories*

Million ounces	2021	2022	2023	Y/Y
London vaults	1,161.5	840.9	856.2	2%
CME	355.7	299.0	277.9	-7%
SGE	73.9	69.0	46.5	-33%
SHFE	75.9	69.2	38.2	-45%
Other	2.7	7.4	4.1	-44%
Total	1,666.9	1,285.5	1,229.9	-5%

स्रोत: मेटल फोकस



स्रोत: मेटल फोकस



आप इस रिपोर्ट को हमारी वेबसाइट पर भी देख सकते हैं- www.smctradeonline.com



Corporate Office:

11/6B, Shanti Chamber,
Pusa Road, New Delhi - 110005
Tel: +91-11-30111000
www.smcindiaonline.com

Mumbai Office:

Lotus Corporate Park, AWing 401 / 402 , 4th Floor ,
Graham Firth Steel Compound, Off Western
Express Highway, Jay Coach Signal, Goreagon
(East) Mumbai - 400063
Tel: 91-22-67341600, Fax: 91-22-67341697

Kolkata Office:

18, Rabindra Sarani, Poddar Court, Gate No-4,
5th Floor, Kolkata-700001
Tel.: 033 6612 7000/033 4058 7000
Fax: 033 6612 7004/033 4058 7004

प्रतिभूति बाजार में निवेश बाजार के जोखिमों के अधीन है। निवेश करने से पहले सभी संबंधित दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ लें। सेबी द्वारा दिया गया पंजीकरण और एनआईएसएम से प्रमाणन किसी भी तरह से मध्यस्थ के प्रदर्शन की गारंटी नहीं देता है या निवेशकों को रिटर्न का कोई आश्वासन नहीं देता है। उद्धृत प्रतिभूतियां केवल उदाहरण के लिए हैं और अनुशासनात्मक नहीं हैं। एसएमसी सेबी द्वारा पंजीकृत एक अनुसंधान विश्लेषक है जिसका पंजीकरण संख्या आईएनएच 100001849 है। सीआईएन: L74899DL1994PLC063609 है।

एसएमसी ग्लोबल सिन्क्रोटीज लिमिटेड (जिसे एसएमसी कहा जाता है) का नियमन भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड द्वारा किया जाता है और इसे ब्रोकिंग व्यवसाय, डिपॉजिटरी सेवाओं और संबंधित सेवाओं करने का लाइसेंस प्राप्त है। एसएमसी ग्लोबल सिन्क्रोटीज लिमिटेड नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड, बांबे स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड, एमएसईआई (मेट्रोपोलिटन स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड) का रजिस्टर्ड सदस्य है और एम/एस एसएमसी कॉम्प्लेक्स नेशनल कमोडिटी एवं डेरिवेटिव्स एक्सचेंज लिमिटेड और मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया और भारत के अन्य कमोडिटी एक्सचेंजों का रजिस्टर्ड सदस्य है। इसकी सहयोगी एसएमसी एक्स स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड को सदस्य है। एसएमसी सीडीएसएल (CDSL) और एनएसडीएल (NSDL) के साथ डिपॉजिटरी भागीदार के रूप में भी रजिस्टर्ड है। एसएमसी के अन्य एसोसिएट सेबी और भारतीय रिजर्व बैंक के साथ मर्चेंट बैंकर, पोर्टफोलियो मैनेजर के रूप में रजिस्टर्ड है। यह म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर के रूप में एएमएफआई (AMFI) में भी रजिस्टर्ड है।

एसएमसी ग्लोबल सिन्क्रोटीज लिमिटेड सेबी (रिस्चर्च एनॉलिसिस) रेगुलेशन 2014 के तहत रिस्चर्च एनॉलिसिस के साथ रजिस्टर्ड संस्था INH100001849 के साथ रजिस्टर्ड संस्था है। एसएमसी ग्लोबल सिन्क्रोटीज लिमिटेड या इसके सहयोगियों को सेबी द्वारा अन्य किसी रेगुलेटरी एग्रीडेंट्री द्वारा सिन्क्रोटीज मार्केट/कमोडिटी मार्केट में कारोबार के लिए प्रतिबंधित/निर्बंधित नहीं किया गया है। रिपोर्ट में रिस्चर्च एनॉलिसिस द्वारा व्यक्त की गई राय केवल सार्वजनिक रूप से प्राप्त सूचनाओं/इंटरनेट आंकड़ों/अन्य विश्वसनीय स्रोतों, जिन्हें सत्य माना जाता है, पर आधारित है। एसएमसी रिपोर्ट में व्यक्त राय या सामग्री को शुद्धता को लेकर कोई आश्वासन नहीं देता है और निवेशकों को सलाह दी जाती है कि निवेश के लिए कोई भी निर्णय करने से पहले बाजार की परिस्थितियों/जोखिमों का स्वतंत्र रूप से मूल्यांकन करें। रिस्चर्च एनॉलिसिस, जिन्होंने इस रिपोर्ट को तैयार किया है, एतद् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि इस रिपोर्ट में विशेष कमोडिटी के संदर्भ में व्यक्त किया गया विचार/राय उनके निजी स्वतंत्र विचार/राय हैं।

डिसक्लेमर: यह रिस्चर्च रिपोर्ट अधिकृत प्रादाकर्ता को व्यक्तिगत सूचना के लिए है और इसका निवेशक के किसी निवेश, विधिक एवं कर संबंधी परामर्श से संबंध नहीं है। यह केवल प्राइवेट सन्कुलेशन एवं उपयोग के लिए है। यह रिपोर्ट विश्वस्त सूचनाओं पर आधारित है लेकिन यह पूरी तरह सही और पूर्ण है, ऐसा जरूरी नहीं और इस पर पूरी तरह भरोसा नहीं किया जाना चाहिए। रिपोर्ट के कन्टेन्ट के आधार पर कोई कार्य नहीं किया जा सकता है। इस रिपोर्ट को एसएमसी से लिखित आज्ञा के बिना किसी भी रूप में नकल एवं किसी भी अन्य व्यक्ति को पुनः वितरण नहीं किया जाना चाहिए। इस सामग्री का कन्टेन्ट सामान्य है और यह न तो पूरी तरह से व्यापक है और न विस्तृत है। इस रिपोर्ट के आधार पर उठाये गये किसी कदम से होने वाली क्षति या नुकसान के लिए न तो एसएमसी और न इसका कोई संबंधी, सहायक, प्रतिनिधि, डॉयरेक्टर या कर्मचारी को उत्तरदायी ठहराया जाना चाहिए। यह कोई व्यक्तिगत अनुमोदन नहीं करता या किसी खास निवेश उद्देश्य, वित्तीय स्थिति या किसी व्यक्तिगत ग्राहक या कॉरपोरेट या सत्ता की जरूरतों को लेकर नहीं चलता है। सभी निवेश जोखिमपूर्ण होते हैं एवं पिछला प्रदर्शन भविष्य के किसी प्रदर्शन को गारंटी नहीं देता है। निवेश की वैल्यू और उससे प्राप्त आमदनी एक निश्चित समय में उपलब्ध कुछ बड़े एवं सूक्ष्म कारकों के बदलाव पर निर्भर कर सकती है। निवेश का निर्णय लेते समय किसी भी व्यक्ति को अपने विवेक का इस्तेमाल करना चाहिए।

कृपया ध्यान रखें कि हम या हमारा कोई अधिकारी, सहायक, प्रतिनिधि, डॉयरेक्टर या कर्मचारी, जो भी इस रिपोर्ट को बनाने या भेजने में शामिल है उसको (अ) समय-समय पर किसी भी कमोडिटीज में, जिनका इस रिपोर्ट में जिक्र किया गया है, खरीद या विक्री, कोई भी पोजिशन हो सकती है और वह इस कमोडिटीज को खरीद या विक्री कर सकता है या (ब) साथ ही साथ वह इन कमोडिटीज के किसी भी प्रकार के सौदों में और ब्रोकरेज या अन्य प्रकार के प्रतिकर में अथवा बाजार निर्माण में शामिल हो सकता है, (स) इस रिपोर्ट में दिए गये सुझावों और संबंधित सूचनाओं एवं विचारों के संदर्भ में इनका अपना कोई भी निहित स्वार्थ या विवाद हो सकता है। सभी विवादों का निपटारा अंतिम रूप से दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीन होगा।